

MAR BINDU CONSTRUCTION

Contractor & Supplier

(Registered in RWD & Irrigation Department)
A-1, 2nd Floor, Grand Chandra Complex, Frazer Road, Patna-800001

रख

Date.....

सौदा में,

"कार्यपालक अभिरथता"

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल, जयनगर

विषय :- कार्य प्रमंडल जयनगर के MAMBSY योजनान्तर्गत
खौईर से इस्लामपुर पासवान टोल पथ निर्माण
कार्य पथ के निर्माण कार्य का पुनरीक्षित प्रावकलन
पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय, उपर्युक्त विषयक प्रारंभिक पत्र से कार्यपालक
अभिरथता ग्राम कां कि, कार्य प्रमंडल, जयनगर द्वारा MAMBSY
योजनान्तर्गत खौईर से इस्लामपुर पासवान टोल निर्माण कार्य,
जिसकी लंबाई 1.167 कि०मी० है, के चैनल से 0.200 से
0.285 कि०मी० के याइनें भाग में पथ के Alignment में
तालाब के अवस्थित होने के कारण प्रावकलन में Retaining
Wall का प्रावधान कर दिनांक 24/08/2019 को उपलब्ध
कराया गया था जिसमें 'मिट्टी की राशि' को जोड़ा नहीं
गया था, जिसकारण ग्रामीणों के द्वारा इस संबंधित किया
गया, इसीलिए कार्य को प्रारंभ नहीं किया जा सका ।

अतः श्रीमान्

से आग्रह है कि Retaining Wall की राशि में
'मिट्टी की राशि' को सौंपित कर तथा time
Extension को बढ़ाते हुए मुझे पुनः इस कार्य को
प्रारंभ करने की कृपा प्रदान की जाय ताकि ग्रामीणों
के द्वारा कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं है ।

आपका विश्वासी

गौतम कुंवर

निरीक्षण प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना खोइर सें इस्लाम पुर पासवान टोला का निरीक्षण कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, जयनगर के साथ किया गया। सड़क की कुल लं०—1.167 किमी० है। पथ के CH-0.2 KM पर एक तालाब है, जो पथ से सटा हुआ है। जिसके कारण पथ का 85 मी० पथांस तालाब के पानी के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है। पथ का 85 मी० पथांस में Retaining wall की आवश्यकता है, जिससे की पथ निर्माणो परान्त यातायात सुचारु रूप से हो सकें।

अतः पथ में कार्यहित में 85 मी० Retaining wall की आवश्यकता है।

१०६/१९

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, जयनगर

११२
२५.२.१७

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल दरभंगा

अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा।

पत्रांक :- 1912 खड्ड

दिनांक :- 24-08-19

प्रेषक,

ई० राजीव नयन प्रसाद सिंह
अधीक्षण अभियन्ता,

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता-3
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:-

कार्य प्रमंडल, जयनगर के MMGSY योजनान्तर्गत खोईर से इस्लामपुर पासवान टोला पथ निर्माण कार्य पथ के निर्माण कार्य का पुनरीक्षित प्राक्कलन पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:-

कार्यपालक अभियन्ता, ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमंडल, जयनगर का पत्रांक-969 अनु०, दिनांक-21.08.2019


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से कार्यपालक अभियन्ता, ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमंडल, जयनगर द्वारा MMGSY योजनान्तर्गत खोईर से इस्लामपुर पासवान टोल निर्माण कार्य, जिसकी लंबाई 1.167 कि०मी० है, के चैनल रा०-0.200 से 0.285 कि०मी० के दाहिने भाग में पथ के Alignment में तालाब के अवस्थित रहने के कारण प्राक्कलन में Retaining Wall का प्रावधान कर उपलब्ध कराया गया है।


अतएव कार्यपालक अभियन्ता, ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमंडल, जयनगर द्वारा उपलब्ध कराया गया विषयांकित पथ का पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रतिहस्ताक्षरोपरांत पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की कार्रवाई हेतु दो प्रतियों में समर्पित की जाती है। विभागीय पत्रांक-8281, दिनांक-13.09.2017 द्वारा मो० 79.21 लाख रु० मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन




अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा।



REVISED ESTIMATE

UNDER - F.D.R

MADHUBANI DISTRICT



DISTRICT :-

MADHUBANI

BLOCK :-

BABUBARHI

Khoir To Islampur Paswan Tol

LENGTH OF ROAD	1.167 KM
LENGTH OF CONSTRUCTION	0.085 KM
TOTAL REVISED ESTIMATED COST OF CONSTRUCTION	Rs. 96.90 Lacs
FIVE YEARS MAINTENANCE COST	Rs. 6.06 Lacs
TOTAL COST OF PROJECT INCLUDING FIVE YEARS MAINTENANCE	Rs. 102.96 Lacs

Submitted By:
Executive Engineer
RWD WORKS DIV -
Jainagar



Prepared By:
Shambhavi Techno Solutions Pvt. Ltd.
E/82, Rajesh Kumar Path
S.k. Puri, Boring Road, Patna - 1 (Bihar)

UNDER - F.D.R
General Abstract of Cost

Name of Road : Khoir To Islampur Paswan Tol

Length of Road : 1.167 Km

SL.No	Particulars		Total Cost (in Laks)
1	Construction Cost As Per Work Done	-	0.00
2	Construction Cost As Per Revised Estimate	-	96.90
	Total Revised Estimated Cost of Construction of road	-	96.90
3	Five years Maintenance Cost	-	6.06
	Total Cost of Project Including Five years Maintenance	-	102.96

[Signature]
10/06/20

J.E.

[Signature]
20/6/20
A.E.

[Signature]
Executive Engineer
RWD WORKS DIV -
Jainagar

SUMMARY OF COST ESTIMATE FOR THE PROJECT

NAME OF ROAD

- Khoir To Islampur Paswan Tol


DISTRICT


- Madhubani


BLOCK

- Babubarhi

Sl. No.	DESCRIPTION	AMOUNT (IN Rs.)
	ROAD WORKS	
1	EARTH WORK	Rs. 1,53,699.00
2	PROTECTION WORK	Rs. 27,88,255.00
	TOTAL PAVEMENT CONSTRUCTION COST	Rs. 29,41,954.00


J.E.


A.E.


E.E.
RWD (W) Division
Jainagar

FDR
COST ESTIMATE FOR ROAD CONSTRUCTION

85 m

Road: Khoir To Islampur Paswan Tol

Block: Babubarhi

District: Madhubani Length:

S. No.	SSR Item No.	Description	No	Length (M)	Width (M)	H/D (M)	Qty.	Unit	Rates (in Rs.)	Amount
1	3.4	Construction of Embankment with Material Obtained from Borrow Pits								
		Construction of embankment with approved material obtained from borrow pits with a lift upto 1.5 m, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacting to meet requirement of Tables 300.1 and 300.2 with a lead upto 1000 m as per Technical Specification Clause 301.5								
			1	100.00	3.00 (av)	3.00 (av)	1050.00	Cum.	146.38	153699.00
							1050.00			1.54
		Total Road work								0.56
		Say Rs. (Lac)								

[Signature]
19/06/20

J.E.


[Signature]
20/6/20
A.E.

[Signature]
19/6

E.E

RWD (W) Division
Jainagar

Khoir To Islampur Paswan Tol





Sr.No.	Ref. to Standard Data book	Sr. No.	Reference to MORD Specifications	Description of Item	Unit	Total Quantity	Rate (Rs)	Amount (Rs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUANTITY & COST ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF GUARD WALL								
1	9.1/11.1	1100 & 300	Earthwork in excavation for structures as per drawing and technical specifications Clause 305.1 including setting out, construction of shoring and bracing, removal of stumps and other deleterious material and disposal upto a lead of 50 m, dressing of sides and bottom and backfilling in trenches with excavated suitable material.					
						1 x 1.65 x 1.5 =	2.480	
				cum		2.480	274.58	681.00
2			Brick Flat Soling in Foundation & Flooring :-- Brick Flat Soling in foundation Trenches as per drawing and technical specification Clause 1108					
						1 x 1.65 =	1.65	
				sqm		1.65	313.72	518.00

3	11.4	800 & 1200	Providing concrete for plain concrete in open foundations complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203 P.C.C grade M 15 $1 \times 1.65 \times 0.15 =$	0.25			1725.00
			cum	0.25	6901.33		
4	12.1, 12.02	1204	Brick masonry work in cement mortar complete excluding pointing and plastering as per drawing and technical specifications Clauses 602, 603, 604, 1202 & 1203 In 1:4 cement mortar $1 \times (1.5 + 0.4) / 2 \times 4.2 =$		3.990		28853.00
			cum	3.99	7231.34		
5	11.4	800 & 1200	Providing concrete for plain/reinforced concrete M-20 in coping over protection wall complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203 P.C.C grade M 20 $1 \times 0.4 \times 0.075 =$	0.03			16.00
			cum	0.03	526.26		
6	12.9	900	Providing Weepholes in brick masonry, Plain / Reinforced concrete abutment, wing wall, return wall with 100 mm dia AC pipe extending through the full width of the structure with slope of 1V: 20H towards drawing face complete as per drawing and technical specification				
			nos	2.00	127.36		255.00
7	13.3	1300 & 2200	Plastering with cement mortar (1:4) on brick work in sub-structure as per Technical Specifications $1 \times (0.4 + 0.075 + 2.925) =$		3.40		
			sqm	3.40	222.18		755.00
Cost of Protection wall in Rs							32803.00

Cost of 85 m Protection Work in Rs = 2788255.00


Junior Engineer


Asstt. Engineer


Executive Engineer
RWD WORKS DIV -
Jainagar







